



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 55]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2001/फाल्गुन 7, 1922

No. 55]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2001/PHALGUNA 7, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2001

सं. 58 (आर.ई.-2000)/1997-2002

फा. सं. 01/94/180/विषिष/ए एम00/ई डी आई.—सार्वजनिक सूचना सं. 17 (आर.ई.-2000)/1997-2002 दिनांक 30 जून, 2000 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयातकों/निर्यातकों के कुछ वर्गों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्थायी आईईसी संख्याओं का निर्धारण किया गया है, जिन्हें अन्यथा आईईसी संख्याएं प्राप्त करने से छूट दी गई हैं। पश्चिम भारत के कुछ भागों में हाल ही में आवे भूकम्प के कारण सरकारी विभागों और कुछ धर्मार्थ संस्थाओं/एन जी ओ द्वारा वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। अतः कुछ संगठनों ने आईईसी संख्या आर्बिट्रि करने का अनुरोध किया है।

का.आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-03-1997 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में यथाअधिसूचित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैराग्राफ 4.11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर.ई. 2000), 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अध्याय 4 के पैराग्राफ 4.6 के उप-पैराग्राफ (vi) में क्रम सं. 11 के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

क्रम सं.	कोड सं.	आयातकों/निर्यातकों का वर्ग
11.	0100000126	व्यक्ति/धर्मार्थ संस्थाएं/पंजीकृत एनजीओ जो उन वस्तुओं का आयात कर रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित वास्तविक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सीमा-शुल्क से छूट दी गई है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन.एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****Public Notice**

New Delhi, the 26th February, 2001

No. 58 (RE-2000)/1997—2002

F.No. 01/94/180/misc./AM00/EDI.—Attention is invited to the provisions of Public Notice No. 17 (RE-2000)/1997—2002 dated 30th June, 2000 which inter-alia lays down the permanent IEC Numbers to be used by certain categories of Importers/Exporters, which are otherwise exempted from obtaining IEC Numbers. Recently in the wake of earthquake, which has hit many parts of the Western India, Goods are being imported by Government Departments as well as by some Charitable Institutions/NGOs. Hence some of the organizations have requested for allotment of IEC No.

In exercise of the powers conferred under para 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii). Vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1) (RE-2000), 1997—2002. The following shall be added as S.No. 11 in sub-paragraph (vi) of paragraph 4.6 of Chapter IV.

S.No.	Code No.	Categories of importers/exporters
11	0100000126	Individuals/Charitable Institutions/Registered NGOs importing goods, which have been exempted from Customs duty under the Notification issued by Ministry of Finance for bona fide use by the victims effected by natural calamity.

This issues in Public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio